

समुच्चय पूजा Samuccaya Pūjā

श्री देव-शास्त्र-गुरु, श्री विद्यमान बीस तीर्थकर, श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी समूह
Śrī dēva-śāstra-guru, Śrī vidyamāna bīsa tīrthaṅkara, Śrī anantānanta
sid'dha parmeshthi samūha

कविश्री ब्र. सरदारमल सच्चिदानंद
Kaviśrī bra. Saradāramala saccidānanda

(दोहा)

(Dōhā)

देव-शास्त्र-गुरु नमन करि, बीस तीर्थकर ध्याय ।

सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमूँ चित्त हुलसाय ॥

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुसमूह! श्री विद्यमानविंशतितीर्थकर समूह! श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठीसमूह!
अत्र अवतर! अवतर! संवौषट्! (आह्वाननम्)

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुसमूह! श्री विद्यमानविंशतितीर्थकर समूह! श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठीसमूह!
अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठः! ठः! (स्थापनम्)

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुसमूह! श्री विद्यमानविंशतितीर्थकर समूह! श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठीसमूह!
अत्र मम सन्निहितो भव! भव! वषट्! (सन्निधिकरणम्)

Dēva-śāstra-guru namana kari, bīsa tīrthaṅkara dhyāya ।

Sid'dha śud'dha rājata sadā, namūṁ citta hulasāya ॥

Ōm hrīm śrī dēva-śāstra-gurusamūha! Śrī vidyamānavinśatītīrthaṅkara samūha! Śrī
anantānanta sid'dhaparamēṣṭhīsamūha! Atra avatara! Avatara! Sanvaṣaṭ! (Āhvānanam)

Ōm hrīm śrī dēva-śāstra-gurusamūha! Śrī vidyamānavinśatītīrthaṅkara samūha! Śrī
anantānanta sid'dhaparamēṣṭhīsamūha! Atra tiṣṭha! Tiṣṭha! Ṭha! Ṭha! (Sthāpanam)

Ōm hrīm śrī dēva-śāstra-gurusamūha! Śrī vidyamānavinśatītīrthaṅkara samūha! Śrī
anantānanta sid'dhaparamēṣṭhīsamūha! Atra mama sannihitō bhava bhava Vaṣaṭ!

(Sannidhikaraṇam)

अनादिकाल से जग में स्वामिन्, जल से शुचिता को माना ।

शुद्ध-निजातम सम्यक्-रत्नत्रय-निधि को नहीं पहिचाना ॥

अब निर्मल-रत्नत्रय-जल ले, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ ।

विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठीभ्यः जन्म-जरा-मृत्यु विनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा। १।

Anādikāla sē jaga mēm svāmin, jala sē śucitā kō mānā |
 Śud'dha-nijātama samyak-ratnatraya-nidhi kō nahim pahicānā ||
 Aba nirmala-ratnatraya-jala lē, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṃ |
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthānkara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṃ ||

Om hrīm śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinsati-tīrthānkārēbhya: Śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Janma-jarā-mṛtyu vināśanāya jalam nirvapāmīti svāhā ||1||

भव-आताप मिटावन की, निज में ही क्षमता समता है |
 अनजाने अब तक मैंने, पर में की झूठी ममता है ||
 चंदन-सम शीतलता पाने, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ |
 विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यः संसारताप-विनाशनाय चन्दनं
 निर्वपामीति स्वाहा।२।

Bhava-ātāpa miṭāvana kī, nija mēm hī kṣamatā samatā hai |
 Anajānē aba taka mainnē, para mēm kī jhūṭhī mamatā hai ||
 Candana-sama śītalatā pānē, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṃ |
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthānkara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṃ ||

Om hrīm śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinsati-tīrthānkārēbhaḥ śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā ||2||

अक्षय-पद बिन फिरा जगत की, लख चौरासी योनी में |
 अष्ट-कर्म के नाश करन को, अक्षत तुम ढिग लाया मैं ||
 अक्षय-निधि निज की पाने को, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ |
 विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यः अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्
 निर्वपामीति स्वाहा।३।

Akṣaya-pada bina phirā jagata kī, lakha caurāsī yōnī mēm |
 Aṣṭa-karma kē nāśa karana kō, akṣata tuma ḍhiṅga lāyā maiṃ ||
 Akṣaya-nidhi nija kī pānē kō, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṃ |
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthānkara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṃ ||

Om hrīm śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinsati-tīrthānkārēbhaḥ śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā ||3||

पुष्प-सुगन्धी से आतम ने, शील-स्वभाव नशाया है ।
 मन्मथ-बाणों से बिंध करके, चहुँ-गति दुःख उपजाया है ॥
 स्थिरता निज में पाने को, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ ।
 विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यः कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं

निर्वपामीति स्वाहा।४।

Puṣpa-sugandhī sē ātama nē, śīla-svabhāva naśāyā hai |
 Manmatha-bāṇōm sē bindha karakē, cahum̐-gati du:kha upajāyā hai ||
 Sthiratā nija mēm̐ pānē kō, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṁ |
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthakara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṁ ||

Ōm hrīm̐ śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinsati-tīrthakarēbhyaḥ śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā. ||4||

षट् रस-मिश्रित भोजन से, ये भूख न मेरी शांत हुई ।
 आतमरस अनुपम चखने से, इन्द्रिय-मन-इच्छा शमन हुई ॥
 सर्वथा भूख के मेटन को, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ ।
 विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यः

क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा।५।

Ṣaṭ-rasa-miśrita bhōjana sē, yē bhūkha na mērī śānta hu'i |
 Ātamarasa anupama cakhanē sē, indriya-mana-icchā śamana hu'i ||
 Sarvathā bhūkha kē mēṭana kō, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṁ |
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthakara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṁ ||

Ōm hrīm̐ śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinsati-tīrthakarēbhyaḥ śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyam̐ nirvapāmīti svāhā ||5||

जड़ दीप विनश्वर को अब तक, समझा था मैंने उजियारा |
 निज-गुण दरशायक ज्ञान-दीप से, मिटा मोह का अंधियारा ||
 ये दीप समर्पित करके मैं, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ |
 विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यः मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति

स्वाहा।६।

Jāra dīpa vinaśvara kō aba taka, samajhā thā mainnē ujiyārā.
 Nija-guṇa daraśāyaka jñāna-dīpa sē, miṭā mōha kā andhiyārā..
 Yē dīpa samarpita karakē mair̄, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṃ̄.
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthan̄kara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṃ̄..

Ōm hrīm̄ śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinsati-tīrthan̄karēbhyaḥ śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Mōhāndhakāra-vināśanāya dīpaṃ nirvapāmīti svāhā ||6||

ये धूप अनल में खेने से, कर्मों को नहीं जलायेगी |
 निज में निज की शक्ति-ज्वाला, जो राग-द्वेष नशायेगी ||
 उस शक्ति-दहन प्रगटाने को, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ |
 विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यः अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति

स्वाहा।७।

Yē dhūpa anala mēm̄ khēnē sē, karmōm̄ kō nahīm̄ jalāyēgī |
 Nija mēm̄ nija kī śakti-jvālā, jō rāga-dvēṣa naśāyēgī ||
 Usa śakti-dahana pragaṭānē kō, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṃ̄ |
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthan̄kara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṃ̄ ||

Ōm hrīm̄ śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinsati-tīrthan̄karēbhyaḥ śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṃ nirvapāmīti svāhā ||7||

पिस्ता बदाम श्रीफल लवंग, चरणन तुम ढिंग मैं ले आया |
 आतमरस-भीने निजगुण-फल, मम मन अब उनमें ललचाया ||
 अब मोक्ष महाफल पाने को, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ |
 विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यः मोक्षफल-प्राप्तये फलं
 निर्वपामीति स्वाहा।८।

Pistā badāma śrīphala lavaṅga, caraṇana tuma ḍhiṅga mairṁ lē āyā |
 Ātamarasa-bhīnē nijaguṇa-phala, mama mana aba unamēṁ lalacāyā ||
 Aba mōkṣa mahāphala pānē kō, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṁ |
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthaṅkara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṁ ||

Om hrīm śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinśati-tīrthaṅkarēbhyaḥ śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Mōkṣaphala-prāptayē phalaṁ nirvapāmīti svāhā ||8||

अष्टम-वसुधा पाने को, कर में ये आठों द्रव्य लिये |
 सहज-शुद्ध स्वाभाविकता से, निज में निज-गुण प्रगट किये ||
 ये अर्घ समर्पण करके मैं, श्री देव-शास्त्र-गुरु को ध्याऊँ |
 विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध-प्रभू के गुण गाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्री देव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्री विद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यः अनर्घ्य पद-प्राप्तये अर्घ्यं
 निर्वपामीति स्वाहा।९।

Aṣṭama-vasudhā pānē kō, kara mēṁ yē āṭhōṁ dravya liyē |
 Sahaja-śud'dha svābhāvikatā sē, nija mēṁ nija-guṇa pragaṭa kiyē ||
 Yē argha samarpaṇa karakē mairṁ, śrī dēva-śāstra-guru kō dhyā'ūṁ |
 Vidyamāna śrī bīsa tīrthaṅkara, sid'dha-prabhū kē guṇa gā'ūṁ ||

Om hrīm śrī dēva-śāstra-gurubhya: Śrī vidyamānavinśati-tīrthaṅkarēbhyaḥ śrī anantānanta
 sid'dhaparamēṣṭhibhya: Anarghya pada-prāptayē arghyaṁ nirvapāmīti svāhā ||9||

जयमाला Jayamālā

देव-शास्त्र-गुरु, बीस-जिन, सिद्ध-अनंतानंत ।

गाऊँ गुण-जयमालिका, भव-दुःख नशें अनंत ॥

Dēva-śāstra-guru, bīsa-jina, sid'dha-anantānanta ।

Gā'ūṁ guṇa-jayamālikā, bhava-du:kha naśēm ananta ॥

(छन्द भुजंगप्रयात)

नसे घातिया-कर्म अरिहंत देवा, करें सुर-असुर नर मुनि नित्य सेवा ।
 दरश-ज्ञान-सुख-बल अनंत के स्वामी, छियालीस गुणयुत महाईश नामी ।
 तेरी दिव्य-वाणी सदा भव्य-मानी, महामोह-विध्वंसिनी मोक्षदानी ।
 अनेकांतमय द्वादशांगी बखानी, नमौ लोकमाता श्री जैनवाणी ।
 विरागी अचारज उवज्झाय साधू, दरश ज्ञान भंडार समता अराधू ।
 नगन वेशधारी सु एकाविहारी, निजानंद मंडित मुक्तिपथ प्रचारी ।
 विदेहक्षेत्र में तीर्थकर बीस राजें, विहरमान वंदूँ सभी पाप भाजें ।
 नमूँ सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधान सहजाभिरामी ।

(Chanda bhujāṅgaprayāta)

Nasē ghātiyā-karma arihanta dēvā,

karēm sura asura nara muni nitya sēvā ।

Daraśa-jñāna-sukha-bala anant kē svāmī,

chiyālīsa guṇayuta mahā'īśānāmī ।

Tērī divya-vāṇī sadā bhavya mānī, mahāmōha-vidhvasinī mōkṣadānī ।

Anēkāntamaya dvādaśāṅgī bakhānī, namaum lōkamātā śrījainavāṇī ।

Virāgī acāraja uvajjhāya sādhus, daraśa jñāna bhaṇḍāra samatā arādhū ।

Nagana vēśadhārī su ēkāvihārī, nijānanda maṇḍita mukatipatha pracārī ।

Vidēhakṣētra mēm tīrthanākara bīsa rājēm,

viharamāna vandūṁ sabhī pāpa bhājēm ।

Namūṁ sid'dha nirbhaya nirāmaya sudhāmī,

anākula samādhāna sahajābhirāmī ।

(चौबोला छन्द)

देव-शास्त्र-गुरु बीस-तीर्थकर, सिद्ध हृदय-बिच धर ले रे |

पूजन ध्यान गान-गुण करके, भवसागर जिय तर ले रे ||

ॐ ह्रीं श्रीदेव-शास्त्र-गुरुभ्यः श्रीविद्यमानविंशति-तीर्थकरेभ्यः श्रीअनंतानंत सिद्धपरमेष्ठभ्यः

जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

(Caubōlā chanda)

Dēva-śāstra-guru bīsa-tīrthāṅkara, sid'dha hṛdaya-bica dhara lē rē |

Pūjana dhyāna gāna-guṇa kara kē, bhavasāgara jiya tara lē rē ||

Ōm hrīm śrīdēva-śāstra-gurubhya: Śrīvidyamānavinśati-tīrthāṅkarēbhyaḥ śrī'anantānanta

sid'dhaparamēṣṭhabhya: Jayamālā-pūrṇārghyam nirvapāmīti svāhā.

(जोगीरासा छन्द)

भूत-भविष्यत्-वर्तमान की, तीस चौबीसी मैं ध्याऊँ |

चैत्य-चैत्यालय कृत्रिमाकृत्रिम, तीन-लोक के मन लाऊँ ||

ॐ ह्रीं त्रिकालसम्बन्धी तीस चौबीसी, त्रिलोकसम्बन्धी कृत्रिमाकृत्रिम चैत्य-चैत्यालयेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

(Jōgīrāsā chanda)

Bhūta-bhaviṣyat-vartamāna kī, tīsa caubīsī mairṁ dhyā'ūṁ |

Caitya-caityālaya kṛtrimākṛtrima, tīna-lōka kē mana lā'ūṁ ||

Ōm hrīm trikālasambandhī tīsa caubīsī, trilōkasambandhī kṛtrimākṛtrima caitya-caityālayēbhya:

Arghyam nirvapāmīti svāhā.

चैत्यभक्ति आलोचन चाहूँ कायोत्सर्ग अघनाशन हेत |

कृत्रिमा-कृत्रिम तीन लोक में, राजत हूँ जिनबिम्ब अनेक ||

चतुर निकाय के देव जजैँ, ले अष्टद्रव्य निज-भक्ति समेत |

निज-शक्ति अनुसार जजूँ मैं, कर समाधि पाऊँ शिव-खेत ||

ॐ ह्रीं त्रिलोकसम्बन्धी समस्त-कृत्रिमाकृत्रिम जिनबिम्बेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

Caityabhakti ālōcana cāhūṁ kāyōtsarga aghanāśana hēta |

Kṛtrimā-kṛtrima tīna lōka mēm, rājata hairṁ jinabimba anēka ||

Caturṇikāya kē dēva jajairṁ, lē aṣṭadravya nija-bhakti samēta |

Nija-śakti anusāra jajūṁ mairṁ, kara samādhi pā'ūṁ śiva-khēta ||

Ōm hrīm trilōkasambandhī samasta-kṛtrimākṛtrim Jinabimbēbhya: Arghyam nirvapāmīti svāhā.

पूर्व-मध्य-अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार |
 देव-वंदना करूँ भाव से, सकल-कर्म की नाशनहार ||
 पंच महागुरु सुमिरन करके, कायोत्सर्ग करूँ सुखकार |
 सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना, जाऊँगा अब मैं भवपार ||

अथ पौर्वाह्निक/माध्याह्निक/अपराह्निक देववंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल-कर्मक्षयार्थं कायोत्सर्गं करोम्यहम्।

(पुष्पांजलिं क्षेपणं कर नौ बार णमोकार मंत्र जपे)

Pūrva-madhya-aparāhna kī bēlā, pūrvācāryōm kē anusāra |
 Dēva-vandanā karūṁ bhāva sē, sakala-karma kī nāśanahāra ||
 Pañca mahāguru sumirana karakē, kāyōtsarga karūṁ sukhakāra |
 Sahaja svabhāva śud'dha lakha apanā, jā'ūṁgā aba mairṁ bhavapāra ||

Atha paurvāhnikā/mādhyāhnikā/aparāhnikā dēvavandanāyām pūrvācāryānukramēṇa sakala-
karmakṣayārtham kāyōtsargam karōmyaham.

(Puṣpāñjalim kṣēpaṇa kara nau bāra ṇamōkāra mantra japēm)
